



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/ माघ 28, 1938

No. 462]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAHGA 28, 1938

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 16 फरवरी, 2017

का.आ. 514(अ).— जबकि सेवाओं या परिलाभों या सब्सिडी के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रूप से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, जबकि भारत का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन का संचालन कर रहा है, जिसके अधीन वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब, केंद्र सरकार का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, परिलाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है :

1. (क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधीन आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि पाने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(ख) व्यक्ति जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रोत्साहन पाने का इच्छुक है परन्तु उसके पास आधार संख्या नहीं है, अथवा अभी आधार हेतु पंजीकृत नहीं है, उसे 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने

की आवश्यकता होगी, यदि व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु पात्र है और ऐसा व्यक्ति आधार हेतु नामांकित होने के लिए (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) किसी भी आधार नामांकन केंद्र में जा सकता है।

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार केंद्र अथवा राज्य का विभाग अथवा उनकी एजेंसी, जिन्हें व्यक्ति विशेष द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं, और यदि उस क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र निकट में स्थित न हो, तो राज्यों में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संबद्ध विभागों द्वारा यूआईडीएआई के पंजीयकों के साथ समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं अथवा यूआईडीएआई पंजीयक बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है।

परन्तु व्यक्ति को आधार संख्या प्रदान किए जाने तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को सब्सिडी निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकती है:-

(क) (i) यदि नामांकन हो गया है, व्यक्ति की आधार नामांकन पहचान पर्ची: अथवा

(ii) आधार नामांकन हेतु किए गए आवेदन की प्रति, जैसा कि पैरा 2 के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) (i) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड, अथवा (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र : अथवा; (iii) राशन कार्ड, अथवा (iv) फोटो युक्त बैंक पासबुक, अथवा (v) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड अथवा; (vi) पासपोर्ट; अथवा; (vii) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस अथवा; (viii) राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी तहसीलदार द्वारा कार्यालय के लेटरहेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र अथवा; (ix) किसान फोटो पासबुक; अथवा (x) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

बशर्ते इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. लाभार्थियों को सुविधाजनक और बाधरहित नामांकन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी एजेंसियों और अन्य माध्यमों से निम्नांकित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगी:-

(क) योजना के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने के लिए संभावित लाभार्थियों को विकास क्षेत्र कार्यालयों अथवा ग्राम पंचायत (जीपी) अथवा इनकी अन्य एजेंसियों के माध्यम से मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और यदि 31 मार्च, 2017 तक उनका नामांकन नहीं हुआ है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर नामांकन कराने का सुझाव दिया जाए। उन्हें स्थानीय आधार पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) लाभग्राहियों के आस-पास नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की स्थिति में, राज्य सरकारों या ब्लॉक कार्यालयों अथवा ग्राम पंचायत जैसे उनके अभिकरणों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और लाभग्राहियों से ग्राम

पंचायत या ब्लॉक कार्यालय या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के वेबपोर्टल को अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर जैसे अन्य विवरण उपलब्ध कराकर नामांकन हेतु अपना आवेदन दर्ज कराने का आग्रह किया जाए।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा. सं. एस-12013/3/2015-एसबीएम]

सत्यव्रत साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 514 (E).—Whereas, the use of Aadhaar number as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Drinking Water and Sanitation in the Government of India is administering the Swachh Bharat Mission (Gramin) (SBM-G) under which an incentive is provided for construction of Individual Household Latrine (IHHL), which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Drinking Water and Sanitation hereby notifies the following, namely:—

1. (a) An individual desirous of incentive for construction of IHHL under Swachh Bharat Mission-Gramin is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (b) An individual desirous of getting incentives under the Swachh Bharat Mission (Gramin) who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar is required to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
- (c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Central or State Department or their agencies which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number shall ensure enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the vicinity, the respective department of the Ministry of Drinking Water and Sanitation in the States, may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or may provide Aadhaar number enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the Individual, incentive under the Swachh Bharat Mission (Gramin) shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:—

- (A) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2, and
- (B) (i) Below Poverty Line (BPL) Card, or (ii) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Bank passbook with photo, or (v) the Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (vi) the Passport; or (vii) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (viii) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (ix) the Kisan Photo passbook; or (x) any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free registration to beneficiaries, the Central Government and State Governments, through its agencies and other means, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) wide publicity through media and individual notices through the Block offices or Gram Panchayat (GP) or its other agencies shall be given to the prospective beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled by 31st March, 2017. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) in case, beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the State Governments or its agencies such as Block Offices or Gram Panchayat are required to create enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details such as name, address, mobile number with their Block Office or Gram Panchayat or through the web portal of the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. S-12013/3/2015-SBM]

SATYABRATA SAHU, Jt. Secy.